



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1931 (श0)  
(सं0 पटना 633) पटना, मंगलवार, 22 दिसम्बर 2009

सं0 एन/गृह-कोषांग-74-0081/2009—275

गृह (विशेष) विभाग

संकल्प

21 दिसम्बर 2009

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 के बीच चलाये गये आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के आश्रितों, घायलों, मीसा/डी0आई0आर0 के तहत कारा में बंद व्यक्तियों एवं कारा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृति के संबंध में “मंत्रियों के समूह” की दिनांक 18 सितम्बर 2009 को माननीय उप मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के आलोक में जे0 पी0 सेनानी सम्मान योजना अन्तर्गत पेंशन/सुविधा की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है।

- |                                  |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. सचिव, गृह विभाग               | : | अध्यक्ष |
| 2. वित्त विभाग के वरीय पदाधिकारी | : | सदस्य   |
| 3. कारा महानिरीक्षक              | : | सदस्य   |
| 4. प्रभारी संयुक्त सचिव/उप सचिव  | : | सदस्य   |
| 5. अवर सचिव                      | : | सदस्य   |
- क. यह समिति सलाहकार पर्वद के स्तर से अनुशंसित सूची की समीक्षा कर आंदोलन के दौरान जेल में निरुद्ध रहे व्यक्तियों के दावे की जाँच

कारा-अभिलेख से कराकर पेंशन देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान करेगी।

- ख. यह समिति निर्धारित अवधि के अन्दर गृह विभाग को आवेदकों के द्वारा पूर्व में सीधे भेजे गये आवेदनों का भी नियमानुसार जाँच कर उसकी स्वीकृति प्रदान करेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन सिन्हा,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 633-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>